



प्रेस विज्ञप्ति
PRESS RELEASE

तत्काल प्रकाशन/ ब्रॉडकास्ट/ प्रसारण के लिए

पीआर/1442

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड - वित्तीय परिणाम

30 सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए

- ✚ निवल लाभ बढ़कर ₹1,323 करोड़ हो गया, वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 60% दर्ज की गई.
- ✚ निवल ब्याज आय ₹3,067 करोड़, वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 12%.
- ✚ निवल अग्रिम ₹1,68,502 करोड़, वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 15% दर्ज की गई.
- ✚ कासा 51.49% रहा.
- ✚ सकल एनपीए में 4.90% की कमी, वर्ष-दर-वर्ष 1161 बीपीएस की सुधार.
- ✚ निवल एनपीए 0.39%की कमी, वर्ष-दर-वर्ष 77 बीपीएस की सुधार.
- ✚ प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 99.10% रहा .
- ✚ सीआरएआर 21.26% रहा.

वि.व. 2024 की द्वितीय तिमाही की विशेषताएं

- ❖ निवल लाभ ₹1,323 करोड़, वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 60%.
- ❖ परिचालनगत लाभ ₹2,072 करोड़ रहा.
- ❖ एनआईएम 4.33% रहा.
- ❖ जमा पर लागत 4.23% रहा.
- ❖ सीआरएआर 21.26% रहा, वर्ष दर-वर्ष-वृद्धि 178 बीपीएस .
- ❖ आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) 1.59% रहा, वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 50 बीपीएस.
- ❖ इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई)19.05 %रहा, वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 384 बीपीएस
- ❖ निवल एनपीए 0.39% रहा, वर्ष-दर-वर्ष 77 बीपीएस की सुधार.
- ❖ सकल एनपीए 4.90% रहा, वर्ष-दर-वर्ष1161 बीपीएस की सुधार.
- ❖ पीसीआर 99.10% रहा, वर्ष-दर-वर्ष 126 बीपीएस की वृद्धि.

वित्तीय वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही के लिए परिचालन कार्य निष्पादन

- निवल लाभ, में दूसरी तिमाही – 2023 के ₹828 करोड़ के निवल लाभ की तुलना में दूसरी तिमाही – 2024 में 60% बढ़ कर ₹1,323 करोड़ की वृद्धि हुई.
- पीबीटी की वृद्धि, दूसरी तिमाही- 2023 के ₹1,437 करोड़ की तुलना में दूसरी तिमाही – 2024 में 60% बढ़ कर ₹2,299 करोड़ हुई.
- परिचालनगत लाभ, दूसरी तिमाही – 2023 के ₹2,208 करोड़ की तुलना में दूसरी तिमाही – 2024 में ₹2,072 करोड़ रहा. दूसरी तिमाही – 2023 के लाभ में एजेस फेडरल लाइफ इन्श्युरेंस कंपनी लि. की बिक्री से ₹380 करोड़ का पूंजीगत लाभ शामिल है.
- निवल ब्याज आय में दूसरी तिमाही – 2023 के ₹2,738 करोड़ की तुलना में दूसरी तिमाही – 2024 में 12% बढ़ कर ₹3,067 करोड़ की वृद्धि हुई.
- निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम), दूसरी तिमाही- 2023 के ₹4.37 करोड़ की तुलना में दूसरी तिमाही – 2024 में ₹4.33 करोड़ रहा.
- जमाराशियों पर लागत, दूसरी तिमाही- 2023 के 3.43% की तुलना में दूसरी तिमाही – 2024 में 80 बीपीएस बढ़ा और 4.23% रहा.
- निधियों पर लागत, दूसरी तिमाही- 2023 के 3.72% की तुलना में दूसरी तिमाही – 2024 में 77 बीपीएस बढ़ा और 4.49% रहा.
- दूसरी तिमाही – 2024 में आय अनुपात पर लागत 47.63% रहा.

कारोबार में वृद्धि

- यथा 30 सितंबर 2023 को कासा ₹1,28,464 करोड़ रहा और कासा अनुपात 51.49% रहा.
- सकल अग्रिम यथा 30 सितंबर 2022 के ₹1,46,924 करोड़ की तुलना में यथा 30 सितंबर 2023 को 15 % वर्ष दर वर्ष की वृद्धि के साथ ₹1,68,502 करोड़ रहा.
- सकल अग्रिम पोर्टफोलियो में कॉर्पोरेट बनाम रिटेल की संरचना यथा 30 सितंबर 2022 के 35.65 की तुलना में यथा 30 सितंबर 2023 को 30:70 की गई.

आस्ति गुणवत्ता

- सकल एनपीए अनुपात, यथा 30 सितंबर 2022 के 16.51% की तुलना में सुधर कर यथा 30 सितंबर 2023 को 4.9% हो गया.
- निवल एनपीए अनुपात, यथा 30 सितंबर 2022 के 1.16% की तुलना में सुधर कर यथा 30 सितंबर 2023 को 0.39% हो गया.

- प्रावधान व्याप्ति अनुपात (तकनीकी रूप से बढ़े खाते डाले गए सहित) यथा 30 सितंबर 2022 के 97.84% से सुधर कर यथा 30 सितंबर 2023 को 99.10% हो गया.

पूंजी स्थिति

- टियर 1 पूंजी, यथा 30 सितंबर 2022 के 17.05% की तुलना में सुधर कर यथा 30 सितंबर 2023 को 18.86% हो गई.
- सीआरएआर, यथा 30 सितंबर 2022 के 19.48% की तुलना में सुधर कर यथा 30 सितंबर 2023 को 21.26% हो गया.
- जोखिम भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए), यथा 30 सितंबर 2022 के ₹1,57,840 करोड़ की तुलना में 30 सितंबर 2023 को ₹1,61,618 करोड़ हो गई.

महत्वपूर्ण विकास

- आईडीबीआई बैंक को वित्त वर्ष के दौरान पीएफआरडीए द्वारा संचालित नेतृत्व शिखर अभियान 23-2022 के लिए उत्कृष्टता कीएक्सेम्प्लरी ट्रॉफी और पीएफआरडीए द्वारा संचालित एपीवाई बिग बिलीवर्स अभियान के लिए उत्कृष्टता के एक्सेम्प्लरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
- आईसीआरए ने आईडीबीआई बैंक की दीर्घकालिक रेटिंग को '[आईसीआरए]ए+' से उन्नत कर '[आईसीआरए]एए-' कर दिया.

मुंबई, 21 अक्टूबर 2023: आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक आज मुंबई में संपन्न हुई जिसमें 30 सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही और अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों को अनुमोदित किया.

प्रिंट, वायर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधि

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400005.
IDBI Bank Limited, Regd. Office: IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005.

सीआईएन / CIN - L65190MH2004GOI148838

विज़िट करें / Visit us: www.idbibank.in |  |  |  |  | 

आईडीबीआई बैंक लि.
वि. व. 2024 की द्वितीय तिमाही के परिणामों की विशेषताएं

P&L Highlights					
(INR in Crore)	Q2FY24	Q1FY24	Growth %	Q2FY23	Growth %
	(3M)	(3M)	Q-o-Q	(3 M)	Y-o-Y
Interest Income	6,035	6,860	↓ -12%	4,978	↑ 21%
Non-Interest Income	889	852	↑ 4%	1,087	↓ -18%
Net Interest Income	3,067	3,998	↓ -23%	2,738	↑ 12%
Profit/(loss) after Tax	1,323	1,224	↑ 8%	828	↑ 60%
Basic EPS (INR)	1.23	1.14	↑ 8%	0.77	↑ 60%
Key P&L Ratios					
Return on Assets ¹	1.59%	1.49%	↑ 10 bps	1.09%	↑ 50 bps
Return on Equity ¹	19.05%	18.64%	↑ 41 bps	15.21%	↑ 384 bps
NIM ¹	4.33%	5.80%	↓ -147 bps	4.37%	↓ -4 bps
Cost of Fund	4.49%	4.40%	↑ 9 bps	3.72%	↑ 77 bps
Cost of Deposit	4.23%	4.12%	↑ 11 bps	3.43%	↑ 80 bps
Cost to Net Income Ratio	47.63%	37.75%	↑ 988 bps	42.29%	↑ 534 bps
Non-Interest Income to Total Income	12.84%	11.05%	↑ 179 bps	17.93%	↓ -509 bps
Balance Sheet Highlights					
(INR in Crore)	30-Sep-23	30-Jun-23	Growth %	30-Sep-22	Growth %
			Q-o-Q		Y-o-Y
Net Advances	168,502	165,403	↑ 2%	146,924	↑ 15%
Deposits	249,481	244,971	↑ 2%	230,310	↑ 8%
Shareholders' Funds	46,799	46,540	↑ 1%	43,251	↑ 8%
Total Balance Sheet	334,241	335,899	↓ -1%	309,138	↑ 8%
Total RWA	161,618	166,660	↓ -3%	157,840	↑ 2%
CASA	128,464	128,870	↑ 0%	129,407	↓ -1%
Key Balance Sheet Ratios					
Capital Adequacy	21.26%	20.33%	↑ 93 bps	19.48%	↑ 178 bps
CET I Ratio	18.86%	17.93%	↑ 93 bps	17.05%	↑ 181 bps
Gross NPA	4.90%	5.05%	↓ -15 bps	16.51%	↓ -1161 bps
Net NPA	0.39%	0.44%	↓ -5 bps	1.16%	↓ -77 bps
Provision Coverage ratio	99.10%	98.99%	↑ 11 bps	97.84%	↑ 126 bps
CASA Ratio	51.49%	52.61%	↓ -112 bps	56.19%	↓ -470 bps

¹ - वार्षिकीकृत

पिछली अवधियों के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/ उल्लिखित किया गया है (जहां आवश्यक हो)

अनुलग्नक के लिए यहां क्लिक करें